

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा मई २०२० माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित क्षेत्रों के लिए जम्मू-कश्मीर में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की पीठ की स्थापना और जहां तक जम्मू पीठ का संबंध है जम्मू के केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण पीठ के अधिकार क्षेत्र में संशोधन किया गया है जिसे दिनांक 28.05.2020 को अधिसूचना संख्या पी-13024/1/2019-एटी (पीटी) के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।
 2. संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा-2017 के सीधी भर्ती के सहायक अनुभाग अधिकारियों से दिनांक 29.05.2020 के का.जा. सं. 7/10/2020-सीएस.I के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में तैनाती के लिए विकल्प मांगे गए।
 3. पीईएसबी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने 07 (सात) पदों के लिए, सीएमडी/एमडी के 01 (एक) पद और निदेशक के 06 (छह) पदों के लिए विज्ञापन जारी किया।
 4. श्री ब्रज राज शर्मा, अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकाल को समयपूर्व कटौती हेतु मंत्रिमंडल (एसीसी) की नियुक्ति समिति द्वारा दिनांक 20.05.2020 के आदेश संख्या 24011/03/2018-स्था.(ख) के द्वारा से अनुमोदित कर दिया गया है।
 5. श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, अपर सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को दिनांक 20.05.2020 के आदेश संख्या 24011/03/2018-स्था.(ख) के द्वारा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से छह माह के लिए अथवा इस पद पर नियमित तैनाती होने तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सौंपा गया है।
2. उपर्युक्त के अलावा, इस विभाग द्वारा विभिन्न विषयों पर निम्नलिखित निर्देश/दिशानिर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए:-
- (i) नॉवल कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रसार को रोकने हेतु निवारक उपायों के संबंध में गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप दिनांक 18.05.2020 के का.जा. सं. 11013/9/2014-स्था.क.III के द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों में उपस्थिति का विनियमन किया गया है।
 - (ii) केंद्र सरकार के चयनित श्रेणियों के कर्मचारियों को दिनांक 19.05.2020 के का.जा. सं. 11013/9/2014-स्था.क.III के द्वारा रोस्टर इयूटी से छूट प्रदान की गई है।